



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1343]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 2006/कार्तिक 17, 1928

No. 1343]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2006/KARTIKA 17, 1928

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006

**क्र.अ. 1915(अ).—**राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी कां० आ० 637(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

## सारणी

क्र.सं.	विनिर्मित का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5

## प्रत्येक ग्राम में

1.	विटामिन ई+ एलोय+स्कवेलिन क्रीम	विटामिन ई ऐसिटेट-1% डब्ल्यू/डब्ल्यू एलोय-5% डब्ल्यू/डब्ल्यू स्कवेलिन-3% डब्ल्यू/डब्ल्यू	50 ग्राम का जार	21.16
2.	विटामिन ई+ एलोय+स्कवेलिन क्रीम	विटामिन ई ऐसिटेट-1% डब्ल्यू/डब्ल्यू एलोय-5% डब्ल्यू/डब्ल्यू स्कवेलिन-3% डब्ल्यू/डब्ल्यू	25 ग्राम का जार	11.86

**नोट :**

- (क) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत की जाती हैं, और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब तक उसे छूट के लिये सरकार/रा.औ.मू.नि.प्रा. से आदेश प्राप्त न हों।
- (ख) वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो-राटा प्राइजिंग आदेश का आ. 83(अ) दिनांक 27.1.1998 के तहत आयेगी।
- (ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन/नियत कराने के लिये आना होगा।
- (घ) इस आदेश में विनिर्मित पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, निम्नलिखित आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

क्र.सं.

आदेश सं.

दिनांक

तथा पूर्व में जारी अन्य सभी आदेश जिन विनिर्मित पैकों की प्रबलता इस आदेश में नियत की गई अधिकतम कीमत के समान हैं।

[क्र.सं./89/2006/वि/फा.सं. 8(5)/2006/डीपी/एनपीपीए-डिवी.-II]

जबदीश कुमार, उप-निदेशक

**MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**  
(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)

**ORDER**

New Delhi, the 8th November, 2006

**S.O. 1915(E).**— In exercise of the powers, conferred by sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S.O. 637 (E) dated the 4<sup>th</sup> September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax, if any, of each of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

**TABLE**

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Vitamin E+Aloes+Squalene Cream	Each gm contains Vitamin E Acetate-1% w/w Aloes 5% w/w Squalene 3% w/w	50gm Jar	21.16
2.	Vitamin E+Aloes+Squalene Cream	Vitamin E Acetate-1% w/w Aloes - 5% w/w Squalene - 3% w/w	25gm Jar	11.86

**Note :**

- (a) The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if any) for the specified pack and packs of similar strength, and companies cannot claim

exemption on any ground therefrom, unless specifically permitted by the Government/NPPA through an order.

- (b) Pro-rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide S.O. No. 83(E) dated 27.1.1998.
- (c) For different packing material used or any special feature claimed, companies are required to approach NPPA for approval/fixation of specific prices.
- (d) Consequent to the issue of ceiling price of the formulation pack(s) in this notification, the following price order(s) issued prior to this date of notification stand automatically withdrawn :

Sl.No.

Price Order No.

Date

and any other price order(s) issued earlier for the composition of the formulation pack for which ceiling price is notified in this notification.

[PN/89/2006/F/F. No. 8(5)/2006/DP/NPPA-Div.-II]

JAGDISH KUMAR, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006

**का.आ. 1916(अ).—**राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 637(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5

प्रत्येक घुलनशील गोलियों में

"1. प्रेडनीसोलोन गोलियां प्रेडनीसोलोन ऐसिटेट-2.5 मिग्रा. 10 का पत्ता/ब्लिस्टर 3.34"

नोट :

- (क) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत की जाती हैं, और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब तक उसे छूट के लिये सरकार/रा.औ.मू.नि.प्रा. से आदेश प्राप्त न हों।
- (ख) वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो-राटा प्राइजिंग आदेश का. आ. 83(अ) दिनांक 27.1.1998 के तहत आयेगी।
- (ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन/नियत कराने के लिये आना होगा।
- (घ) इस आदेश में विनिर्मित पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, निम्नलिखित आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

क्र.सं.

आदेश सं.

दिनांक

तथा पूर्व में जारी अन्य सभी आदेश जिन विनिर्मित पैकों की प्रबलता इस आदेश में नियत की गई अधिकतम कीमत के समान हैं।

[कां.सं./89/2006/वि/फा.सं. 8(5)/2006/डीपी/एनपीपीए-डिवी.-II]

जगदीश कुमार, उप-निदेशक

### ORDER

New Delhi, the 8th November, 2006

**S.O. 1916(E).**— In exercise of the powers, conferred by sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S.O. 637 (E) dated the 4<sup>th</sup> September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax, if any, of each of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

**TABLE**

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prednisolone Tablets	<u>Each dispersible tablet contains</u> Prednisolone Acetate -2.5 mg	10's Strip/Blister	3.34"

**Note :**

- The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if any) for the specified pack and packs of similar strength, and companies cannot claim exemption on any ground therefrom, unless specifically permitted by the Government/NPPA through an order.
- Pro-rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide S.O. No. 83(E) dated 27.1.1998.
- For different packing material used or any special feature claimed, companies are required to approach NPPA for approval/fixation of specific prices.
- Consequent to the issue of ceiling price of the formulation pack(s) in this notification, the following price order(s) issued prior to this date of notification stand automatically withdrawn :

Sl.No.

Price Order No.

Date

and any other price order(s) issued earlier for the composition of the formulation pack for which ceiling price is notified in this notification.

[PN/89/2006/F/F. No. 8(5)/2006/DP/NPPA-Div.-II]

JAGDISH KUMAR, Dy. Director

## आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006

**ख.अ. 1917(अ).—**राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 637(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

## सारणी

क्र.सं.	विनिर्मित का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5

प्रत्येक घुलनशील गोलियों में

1.	सेफाड्रोक्सील मोनोहाइड्रेट+ पोटाशियम क्लेव्यूलेनेट गोलियां	सेफाड्रोक्सील मोनोहाइड्रेट 250 मिग्रा. सेफाड्रोक्सील के बराबर पोटाशियम क्लेव्यूलेनेट 62.5 मिग्रा. क्लेव्यूलिनिक एसिड के बराबर	6 का पत्ता/ब्लिस्टर	30.26
----	---	--	---------------------	-------

प्रत्येक फिल्म लिपित गोलियों में

2.	सेफाड्रोक्सील मोनोहाइड्रेट+ पोटाशियम क्लेव्यूलेनेट गोलियां	सेफाड्रोक्सील मोनोहाइड्रेट 500 मिग्रा. सेफाड्रोक्सील के बराबर पोटाशियम क्लेव्यूलेनेट 125 मिग्रा. क्लेव्यूलिनिक एसिड के बराबर	6 का पत्ता/ब्लिस्टर	58.98
----	---	---	---------------------	-------

प्रत्येक 5 मिलि सस्पेंशन घुलने के बाद में

3.	सेफाड्रोक्सील मोनोहाइड्रेट+ पोटाशियम क्लेव्यूलेनेट ड्राई सिरप/सस्पेंशन	सेफाड्रोक्सील मोनोहाइड्रेट 250 मिग्रा. सेफाड्रोक्सील के बराबर पोटाशियम क्लेव्यूलेनेट 62.5 मिग्रा. क्लेव्यूलिनिक एसिड के बराबर	30 मिलि की बोतल एम. कप और कार्टन सहित	35.80"
----	--	--	---	--------

## नोट :

- (क) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत की जाती हैं, और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब तक उसे छूट के लिये सरकार/रा.औ.मू.नि.प्रा. से आदेश प्राप्त न हों।
- (ख) वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो-राटा प्राइजिंग आदेश का आ. 83(अ) दिनांक 27.1.1998 के तहत आयेगी।
- (ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन/नियत कराने के लिये आना होगा।
- (घ) इस आदेश में विनिर्मित पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, निम्नलिखित आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

क्र.सं.

आदेश सं.

दिनांक

तथा पूर्व में जारी अन्य सभी आदेश जिन विनिर्मित पैकों की प्रबलता इस आदेश में नियत की गई अधिकतम कीमत के समान हैं।

**ORDER**

New Delhi, the 8th November, 2006

**S.O. 1917(E).**—In exercise of the powers, conferred by sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S.O. 637 (E) dated the 4<sup>th</sup> September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax, if any, of each of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

**TABLE**

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Cefadroxil Monohydrate + Potassium Clavulanate Tablets	<u>Each dispersible tablet contains</u> Cefadroxil Monohydrate eq. to Cefadroxil - 250mg Pot. Clavulanate eq. to Clavulanic Acid - 62.5mg	6's Strip/Blister	30.26
2.	Cefadroxil Monohydrate + Potassium Clavulanate Tablets	<u>Each film coated tablet contains</u> Cefadroxil Monohydrate eq. to Cefadroxil - 500mg Pot. Clavulanate eq. to Clavulanic Acid - 125mg	6's Strip/Blister	58.98
3.	Cefadroxil Monohydrate + Potassium Clavulanate Dry Syrup/Suspension	<u>Each 5ml reconstituted suspension contains</u> Cefadroxil Monohydrate eq. to Cefadroxil - 250mg Pot. Clavulanate eq. to Clavulanic Acid - 62.5mg	30ml Bottle with M. Cup & Carton	35.80**

**Note :**

- (a) The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if any) for the specified pack and packs of similar strength, and companies cannot claim exemption on any ground therefrom, unless specifically permitted by the Government/NPPA through an order.
- (b) Pro-rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide S.O. No. 83(E) dated 27.1.1998.
- (c) For different packing material used or any special feature claimed, companies are required to approach NPPA for approval/fixation of specific prices.
- (d) Consequent to the issue of ceiling price of the formulation pack(s) in this notification, the following price order(s) issued prior to this date of notification stand automatically withdrawn :

Sl.No.

Price Order No.

Date

and any other price order(s) issued earlier for the composition of the formulation pack for which ceiling price is notified in this notification.

[PN/89/2006/F/F. No. 8(5)/2006/DP/NPPA-Div.-II]

JAGDISH KUMAR, Dy. Director

**नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006**

**का.आ. 1918(अ).—**राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 637(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के आदेश सं० का० आ० 1072(अ), तारीख 11 जुलाई, 2006 को जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मित पैकों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितयों में से प्रत्येक की, उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

## संरणी

क्र.सं.	विनिर्भिति का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5
		<b>प्रत्येक 2 मिलि में</b>		
1.	जैन्टामाइसिन इन्जेक्शन	जैन्टामाइसिन सल्फेट 80 मिग्रा. जैन्टामाइसिन के बराबर	10 मिलि की वायल फिलिप ऑफ सील	10.76
2.	जैन्टामाइसिन इन्जेक्शन	जैन्टामाइसिन सल्फेट 80 मिग्रा. जैन्टामाइसिन के बराबर	20 मिलि की वायल फिलिप ऑफ सील	16.00

**नोट :**

- (क) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत की जाती हैं, और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब तक उसे छूट के लिये सरकार/रा.औ.मू.नि.प्रा. से आदेश प्राप्त न हों।
- (ख) वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो-राटा प्राइजिंग आदेश का आ. 83(अ) दिनांक 27.1.1998 के तहत आयेगी।
- (ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामाग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन/नियत कराने के लिये आना होगा।
- (घ) इस आदेश में विनिर्मित पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, निम्नलिखित आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

क्र.सं. आदेश सं. दिनांक

तथा पूर्व में जारी अन्य सभी आदेश जिन विनिर्मित पैका की प्रबलता इस आदेश में नियत की गई अधिकतम कीमत के समान हैं।

**ORDER**

New Delhi, the 8th November, 2006

**S.O. 1918(E).**—In exercise of the powers, conferred by sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S.O. 637 (E) dated the 4<sup>th</sup> September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, (National Pharmaceutical Pricing Authority) No. S.O. 1072(E), dated 11<sup>th</sup> July, 2006, in so far as it relates to formulation packs mentioned in the table below, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the National Pharmaceutical Pricing Authority hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table below as the ceiling price exclusive of excise duty, and local tax, if any, for scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in column (3) and (4) thereof :

**TABLE**

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gentamycin Injections	Each 2ml contains Gentamycin Sulphate eq. to Gentamycin - 80 mg	10ml Vial with flip off seal	10.76
2.	Gentamycin Injections	Gentamycin Sulphate eq. to Gentamycin - 80 mg	20ml Vial with flip off seal	16.00

**Note :**

- The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if any) for the specified pack and packs of similar strength, and companies cannot claim exemption on any ground therefrom, unless specifically permitted by the Government/NPPA through an order.
- Pro-rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide S.O. No. 83(E) dated 27.1.1998.
- For different packing material used or any special feature claimed, companies are required to approach NPPA for approval/fixation of specific prices.
- Consequent to the issue of ceiling price of the formulation pack(s) in this notification, the following price order(s) issued prior to this date of notification stand automatically withdrawn :

Sl.No.

Price Order No.

Date

and any other price order(s) issued earlier for the composition of the formulation pack for which ceiling price is notified in this notification.

[PN/89/2006/F.F. No. 8(5)/2006/DP/NPPA-Div.-II]

JAGDISH KUMAR, Dy. Director

## आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006

**क्र.अ. 1919(अ).—**राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 637(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

## सारणी

क्र.सं. विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4

प्रत्येक एंट्रिक लिपित गोलियों में

"1. एरिथ्रोमाइसिन गोलियां एरिथ्रोमाइसिन बेस-333 मिग्रा. 10 का प्लेटा/ब्लिस्टर 19.08"

## नोट :

- (क) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत की जाती हैं, और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब तक उसे छूट के लिये सरकार/रा.औ.मु.नि.प्रा. से आदेश प्राप्त न हो।
- (ख) वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो-राटा प्राइजिंग आदेश का. आ. 83(अ) दिनांक 27.1.1998 के तहत आयेगी।
- (ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन/नियत कराने के लिये आना होगा।
- (घ) इस आदेश में विनिर्मित पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, निम्नलिखित आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

क्र.सं.	आदेश सं.	दिनांक
1.	8(2)/2006/DP/NPPA-Div.II	19.05.2006

तथा पूर्व में जारी अन्य सभी आदेश जिन विनिर्मित पैकों की प्रबलता इस आदेश में नियत की गई अधिकतम कीमत के समान हैं।

[क्र.सं./89/2006/वि/फा.सं. 8(5)/2006/डीपी/एनपीपीए-डिवी.-II]

जगदीश कुमार, उप-निदेशक

## ORDER

New Delhi, the 8th November, 2006

**S.O. 1919(E).—**In exercise of the powers, conferred by sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 9 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S.O. 637 (E) dated the 4<sup>th</sup> September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax, if any, of each of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

354961/06-2

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.	Erythromycin Tablets	<u>Each enteric coated tablet contains</u> Erythromycin Base - 333 mg	10's Strip/Blister	19.08"
----	----------------------	--	--------------------	--------

## Note :

- (a) The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if any) for the specified pack and packs of similar strength, and companies cannot claim exemption on any ground therefrom, unless specifically permitted by the Government/NPPA through an order.
- (b) Pro-rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide S.O. No. 83(E) dated 27.1.1998.
- (c) For different packing material used or any special feature claimed, companies are required to approach NPPA for approval/fixation of specific prices.
- (d) Consequent to the issue of ceiling price of the formulation pack(s) in this notification, the following price order(s) issued prior to this date of notification stand automatically withdrawn :

Sl.No.	Price Order No.	Date
1.	8(2)/2006/DP/NPPA-Div.II	19.05.2006

and any other price order(s) issued earlier for the composition of the formulation pack for which ceiling price is notified in this notification.

[PN/89/2006/F.F. No. 8(5)/2006/DP/NPPA-Div.-II]

JAGDISH KUMAR, Dy. Director

## आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006

**आ.आ. 1920(अ).—**राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 637(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा (1) और (2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

## सारणी

क्र.सं.	विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5
		<u>प्रत्येक ग्राम में</u>		
1	जैन्तामाइसिन+माइकोनाजोल नाइट्रेट+फ्लयूसिनोलोन ऐसिटोनाइड क्रीम/ऑयनटमैंट	जैन्तामाइसिन-0.1% डब्ल्यू/डब्ल्यू माइकोनाजोल नाइट्रेट-2% डब्ल्यू/डब्ल्यू फ्लयूसिनोलोन ऐसिटोनाइड-0.01% डब्ल्यू/डब्ल्यू	5 ग्राम की ट्यूब	4.46

2.	जैन्टामाइसिन+बिकलोमिथाजोन डाईप्रोपियोनेट+क्लोट्रीमाजोल क्रीम/ऑयनटमेंट	जैन्टामाइसिन सल्फेट 0.1% डब्ल्यू/डब्ल्यू जैन्टामाइसिन के बराबर बिकलोमिथाजोन डाईप्रोपियोनेट-0.025% डब्ल्यू/डब्ल्यू क्लोट्रीमाजोल-1% डब्ल्यू/डब्ल्यू	10 ग्राम की ट्यूब	5.78"
----	---	---	-------------------	-------

**नोट :**

- (क) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत की जाती हैं, और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब तक उसे छूट के लिये सरकार/रा.औ.मू.नि.प्रा. से आदेश प्राप्त न हों।
- (ख) वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो-राटा प्राइजिंग आदेश का आ. 83(अ) दिनांक 27.1.1998 के तहत आयेगी।
- (ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन/नियत कराने के लिये आना होगा।
- (घ) इस आदेश में विनिर्मित पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, निम्नलिखित आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

क्र.सं.

आदेश सं.

दिनांक

तथा पूर्व में जारी अन्य सभी आदेश जिन विनिर्मित पैकों की प्रबलता इस आदेश में नियत की गई अधिकतम कीमत के समान हैं।

[क्र.सं./89/2006/वि/फा.सं. 8(5)/2006/डीपी/एनपीपीए-डिबी.-II]

जगदीश कुमार, उप-निदेशक

**ORDER**

New Delhi, the 8th November, 2006

**S.O. 1920(E).**—In exercise of the powers, conferred by sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 9 and paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S.O. 637 (E) dated the 4<sup>th</sup> September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax, if any, of each of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

**TABLE**

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<u>Each gm contains</u>		
1.	Gentamycin + Miconazole Nitrate + Fluocinolone Acetonide Cream/Ointment	Gentamycin 0.1% w/w Miconazole Nitrate 2% w/w Fluocinolone Acetonide 0.01% w/w	5gm Tube	4.46
2.	Gentamycin + Beclomethasone Dipropionate + Clotrimazole Cream/Ointment	Gentamycin Sulphate eq. to Gentamycin -0.1% w/w Beclomethasone Dipropionate-0.025% w/w Clotrimazole - 1% w/w	10gm Tube	5.78"

**Note :**

- (a) The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if any) for the specified pack and packs of similar strength, and companies cannot claim exemption on any ground therefrom, unless specifically permitted by the Government/NPPA through an order.
- (b) Pro-rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide S.O. No. 83(E) dated 27.1.1998.
- (c) For different packing material used or any special feature claimed, companies are required to approach NPPA for approval/fixation of specific prices.
- (d) Consequent to the issue of ceiling price of the formulation pack(s) in this notification, the following price order(s) issued prior to this date of notification stand automatically withdrawn :

Sl.No.

Price Order No.

Date

and any other price order(s) issued earlier for the composition of the formulation pack for which ceiling price is notified in this notification.

[PN/89/2006/F/F. No. 8(5)/2006/DP/NPPA-Div.-II]

JAGDISH KUMAR, Dy. Director

**आदेश**

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006

**क्र.आ. 1921(अ).**—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 637(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा (1) और (2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

**सारणी**

क्र.सं.	विनिर्मित का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5
		<b>प्रत्येक किट में</b>		
1.	रिफैम्पीसिन+आइसोनियोजिड+ पायराजिनामाइड+ इथामब्यूटोल एचसीएल किट	रिफैम्पीसिन—150 मिग्रा., आइसोनियोजिड—100 मिग्रा. और पायराजिनामाइड—500 मिग्रा. की एक गोली इथामब्यूटोल एचसीएल—800 मिग्रा. की एक लिपित गोली	1 किट	5.82
		<b>प्रत्येक किड गोलियों में</b>		
2.	रिफैम्पीसिन+आइसोनियोजिड गोलियां	रिफैम्पीसिन—150 मिग्रा. आइसोनियोजिड—100 मिग्रा.	10 का पत्ता/ब्लिस्टर	13.74"

**नोट :**

- (क) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत की जाती हैं, और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब तक उसे छूट के लिये सरकार/रा.औ.मू.नि.प्रा. से आदेश प्राप्त न हों।
- (ख) वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो-राटा प्राइजिंग आदेश का. आ. 83(अ) दिनांक 27.1.1998 के तहत आयेगी।
- (ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामाग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन/नियत कराने के लिये आना होगा।
- (घ) इस आदेश में विनिर्मित पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, निम्नलिखित आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

क्र.सं.

आदेश सं.

दिनांक

तथा पूर्व में जारी अन्य सभी आदेश जिन विनिर्मित पैकों की प्रबलता इस आदेश में नियत की गई अधिकतम कीमत के समान हैं।

[कां.सं./89/2006/वि.प्र.सं. 8(5)/2006/डीपी/एनपीपीए-डिवी.-II]

जगदीश कुमार, उप-निदेशक

**ORDER**

New Delhi, the 8th November, 2006

**S.O. 1921(E).**—In exercise of the powers, conferred by sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 9 and paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S.O. 637 (E) dated the 4<sup>th</sup> September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax, if any, of each of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

**TABLE**

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rifampicin+ Isoniazid+ Pyrazinamide + Ethambutol Hcl Kit	<u>Each kit contains</u> One tab of Rifampicin 150mg Isoniazid 100mg Pyrazinamide 500mg and One coated tab of Ethambutol Hcl 800mg	1 Kit	5.82
2.	Rifampicin+ Isoniazid Tablets	<u>Each kid tablet contains</u> Rifampicin 150mg Isoniazid 100mg	10's Strip/Blister	13.74"

**Note :-**

- (a) The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if any) for the specified pack and packs of similar strength, and companies cannot claim exemption on any ground therefrom, unless specifically permitted by the Government/NPPA through an order.

- (b) Pro-rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide S.O. No. 83(E) dated 27.1.1998.
- (c) For different packing material used or any special feature claimed, companies are required to approach NPPA for approval/fixation of specific prices.
- (d) Consequent to the issue of ceiling price of the formulation pack(s) in this notification, the following price order(s) issued prior to this date of notification stand automatically withdrawn :

Sl.No.

Price Order No:

Date

and any other price order(s) issued earlier for the composition of the formulation pack for which ceiling price is notified in this notification.

[PN/89/2006/E/F.No. 8(5)/2006/DP/NPPA-Div.-II]

JAGDISH KUMAR, Dy. Director

आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006

**क्र.अ. 1922(अ)**—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 637(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा (1) और (2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

सारणी

क्र.सं.	विनिर्मित का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5

प्रत्येक गोतियों में

1.	थियोफाइलिन+केटोटिफेन गोतियां	थियोफाइलिन-200 मिग्रा. केटोटिफेन-1 मिग्रा.	10 का पत्ता/ब्लिस्टर	3.20"
----	------------------------------	---	-------------------------	-------

नोट :

- (क) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत की जाती हैं, और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब तक उसे छूट के लिये सरकार/रा.औ.मू.नि.प्रा. से आदेश प्राप्त न हों।
- (ख) वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो-राटा प्राइजिंग आदेश का, आ. 83(अ) दिनांक 27.1.1998 के तहत आयेगी।
- (ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन/नियत कराने के लिये आना होगा।
- (घ) इस आदेश में विनिर्मित पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, सिम्नलिखित आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

क्र.सं.

आदेश सं.

दिनांक

तथा पूर्व में जारी अन्य सभी आदेश जिन विनिर्मित पैकों की प्रबलता इस आदेश में नियत की गई अधिकतम कीमत के समान हैं।

[क्र.सं./89/2006/वि.फा.सं. 8(5)/2006/डीपी/एनपीपीए-डिवी.-II]

जगदीश कुमार, उप-निदेशक

## ORDER

New Delhi, the 8th November, 2006

**S.O. 1922(E).**—In exercise of the powers, conferred by sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 9 paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S.O: 637 (E) dated the 4<sup>th</sup> September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax, if any, of each of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Theophylline + Ketotifen Tablets	<u>Each tablet contains</u> Theophylline - 200mg Ketotifen 1mg	10's Strip/Blister	3.20"

## Note :

- The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if any) for the specified pack and packs of similar strength, and companies cannot claim exemption on any ground therefrom, unless specifically permitted by the Government/NPPA through an order.
- Pro-rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide S.O. No. 83(E) dated 27.1.1998.
- For different packing material used or any special feature claimed, companies are required to approach NPPA for approval/fixation of specific prices.
- Consequent to the issue of ceiling price of the formulation pack(s) in this notification, the following price order(s) issued prior to this date of notification stand automatically withdrawn :

Sl.No.	Price Order No.	Date
--------	-----------------	------

and any other price order(s) issued earlier for the composition of the formulation pack for which ceiling price is notified in this notification.

[PN/89/2006/F/F. No. 8(5)/2006/DP/NPPA-Div.-II]

JAGDISH KUMAR, Dy. Director

## आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006

**S.O. 1922(E).**—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 637(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा (1) और (2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

## सारणी

क्र.सं.	विनिर्माता का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5
		प्रत्येक ग्राम में		
1.	बिटा मिथाजोन डाईप्रोपियोनेट+सेलिसिलिक ऐसिड+लेक्टिक ऐसिड क्रीम/ऑयनटमैट	बिटा मिथाजोन डाईप्रोपियोनेट-0.05% डब्ल्यू/डब्ल्यू सेलिसिलिक ऐसिड 3% डब्ल्यू/डब्ल्यू लेक्टिक ऐसिड 10% डब्ल्यू/डब्ल्यू	20 ग्राम की ट्यूब	10.24
2.	बिटा मिथाजोन डाईप्रोपियोनेट+ जैन्टामाइसिन+टोल्नाफेट आइडोक्लोरोहाइड्रोक्सी- क्यूनोलिन क्रीम/ऑयनटमैट	बिटा मिथाजोन डाईप्रोपियोनेट-0.643 मिग्रा. जैन्टामाइसिन सल्फेट 1 मिग्रा. जैन्टामाइसिन बेस के बराबर लेक्टिक ऐसिड 10% डब्ल्यू/डब्ल्यू टोल्नाफेट-10 मिग्रा. आइडोक्लोरोहाइड्रोक्सीक्यूनोलिन-10 मिग्रा.	10 ग्राम की ट्यूब	8.08
3.	बिटा मिथाजोन डाईप्रोपियोनेट+क्लोट्रिमाजोल क्रीम/ऑयनटमैट	बिटा मिथाजोन डाईप्रोपियोनेट 0.05% डब्ल्यू/डब्ल्यू बिटा मिथाजोन के बराबर क्लोट्रिमाजोल-1% डब्ल्यू/डब्ल्यू	7 ग्राम की ट्यूब	6.26
4.	बिटा मिथाजोन डाईप्रोपियोनेट क्रीम/ऑयनटमैट	बिटा मिथाजोन डाईप्रोपियोनेट 0.05% डब्ल्यू/डब्ल्यू बिटा मिथाजोन के बराबर	16 ग्राम की ट्यूब	11.42
5.	बिटा मिथाजोन डाईप्रोपियोनेट क्रीम/ऑयनटमैट	बिटा मिथाजोन डाईप्रोपियोनेट 0.0125% डब्ल्यू/डब्ल्यू बिटा मिथाजोन के बराबर	16 ग्राम की ट्यूब	7.60
6.	बिटा मिथाजोन डाईप्रोपियोनेट+ जैन्टामाइसिन+क्लोट्रिमाजोल क्रीम/ऑयनटमैट	बिटा मिथाजोन डाईप्रोपियोनेट 0.05% डब्ल्यू/डब्ल्यू बिटा मिथाजोन के बराबर जैन्टामाइसिन सल्फेट-0.1% डब्ल्यू/डब्ल्यू क्लोट्रिमाजोल-1.0% डब्ल्यू/डब्ल्यू	16 ग्राम की ट्यूब	9.66
7.	बिटा मिथाजोन डाईप्रोपियोनेट+ जैन्टामाइसिन+क्लोट्रिमाजोल क्रीम/ऑयनटमैट	बिटा मिथाजोन डाईप्रोपियोनेट 0.05% डब्ल्यू/डब्ल्यू बिटा मिथाजोन के बराबर जैन्टामाइसिन सल्फेट-0.1% डब्ल्यू/डब्ल्यू क्लोट्रिमाजोल-1.0% डब्ल्यू/डब्ल्यू	7 ग्राम की ट्यूब	6.02
8.	बिटा मिथाजोन डाईप्रोपियोनेट+ सेलिसिलिक ऐसिड+यूरिया+ लेक्टिक ऐसिड+सोडियम लेक्टेट क्रीम/ऑयनटमैट	बिटा मिथाजोन डाईप्रोपियोनेट 0.05% डब्ल्यू/डब्ल्यू बिटा मिथाजोन के बराबर सेलिसिलिक ऐसिड-3.00% डब्ल्यू/डब्ल्यू यूरिया-10% डब्ल्यू/डब्ल्यू लेक्टिक ऐसिड-3.00% डब्ल्यू/डब्ल्यू सोडियम लेक्टेट 2.00% डब्ल्यू/डब्ल्यू लेक्टिक ऐसिड के बराबर	15 ग्राम की ट्यूब	7.90"

## नोट :

- (क) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत की जाती हैं, और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब तक उसे छूट के लिये सरकार/रा.औ.मू.नि.प्रा. से आदेश प्राप्त न हों।
- (ख) वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो-राटा प्राइजिंग आदेश का आ. 83(अ) दिनांक 27.1.1998 के तहत आयेगी।
- (ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन/नियत कराने के लिये आना होगा।
- (घ) इस आदेश में विनिर्मित पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, निम्नलिखित आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

क्र.सं.

आदेश सं.

दिनांक

तथा पूर्व में जारी अन्य सभी आदेश जिन विनिर्मित पैकों की प्रबलता इस आदेश में नियत की गई अधिकतम कीमत के समान हैं।

[क्र.सं./89/2006/वि/फा.सं. 8(5)/2006/डीपी/एनपीपीए-डिबी.-II]

जगदीश कुमार, उप-निदेशक

## ORDER

New Delhi, the 8th November, 2006

**S.O. 1923(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 9 and paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S.O. 637 (E) dated the 4<sup>th</sup> September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax, if any, of each of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<u>Each gm contains</u>			
1.	Betamethasone Dipropionate Salicylic Acid+ Lactic Acid Cream/Ointment	Betamethasone Dipropionate -0.05%w/w Salicylic Acid 3% w/w Lactic Acid 10% w/w	20gm Tube	10.24
2.	Betamethasone Dipropionate Gentamycin + Tolnaftate+ Iodochlorhydroxyquinoline Cream/Ointment	Betamethasone Dipropionate 0.643mg Gentamycin Sulphate eq. to Gentamycin base 1mg Tolnaftate 10mg Iodochlorhydroxyquinoline 10mg	10gm Tube	8.08
3.	Betamethasone Dipropionate+Clotrimazole Cream/Ointment	Betamethasone Dipropionate eq. to Betamethasone 0.05% w/w Clotrimazole - 1% w/w	7gm Tube	6.26

354962/06—3

4.	Betamethasone Dipropionate Cream/Ointment	Betamethasone Dipropionate eq. to Betamethasone 0.05% w/w	16gm Tube	11.42
5.	Betamethasone Dipropionate Cream/Ointment	Betamethasone Dipropionate eq. to Betamethasone 0.0125% w/w	16gm Tube	7.60
6.	Betamethasone Dipropionate+Gentamycin+ Clotrimazole Cream/Ointment	Betamethasone Dipropionate eq. to Betamethasone 0.05% w/w Gentamycin Sulphate-0.1% w/w Clotrimazole-1.0% w/w	16gm Tube	9.66
7.	Betamethasone Dipropionate+Gentamycin+ Clotrimazole Cream/Ointment	Betamethasone Dipropionate eq. to Betamethasone 0.05% w/w Gentamycin Sulphate-0.1% w/w Clotrimazole-1.0% w/w	7gm Tube	6.02
8.	Betamethasone Dipropionate +Salicylic + Acid + Urea+ Lactic Acid+ Sodium Lactate Cream/Ointment	Betamethasone Dipropionate eq. to Betamethasone 0.05% w/w Salicylic Acid - 3.00% w/w Urea - 10% w/w Lactic Acid - 3.00% w/w Sodium Lactate eq. to Lactic acid - 2.00% w/w	15gm Tube	7.90"

**Note :**

- (a) The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if any) for the specified pack and packs of similar strength, and companies cannot claim exemption on any ground therefrom, unless specifically permitted by the Government/NPPA through an order.
- (b) Pro-rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide S.O. No. 83(E) dated 27.1.1998.
- (c) For different packing material used or any special feature claimed, companies are required to approach NPPA for approval/fixation of specific prices.
- (d) Consequent to the issue of ceiling price of the formulation pack(s) in this notification, the following price order(s) issued prior to this date of notification stand automatically withdrawn :
- | Sl.No.  | Price Order No. | Date |
|---|-----------------|------|
| and any other price order(s) issued earlier for the composition of the formulation pack for which ceiling price is notified in this notification. |                 |      |

[PN/89/2006/F/F. No. 8(5)/2006/DP/NPPA-Div.-II]

JAGDISH KUMAR, Dy. Director

**आदेश**

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006

**का.आ. 1924(अ).**—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी कां० आ० 637(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा (1) और (2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

सारणी				
क्र.सं.	विनिर्दिष्ट पैक का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5
<b>प्रत्येक गोलियों में</b>				
1.	मैट्रोनिडाजोल+डायलोकसामाइड फ्यूरेट गोलियां	मैट्रोनिडाजोल-200 मिग्रा. डायलोकसामाइड फ्यूरेट-250 मिग्रा.	15 की बोतल	12.90
<b>प्रत्येक वेजिनल गोलियों में</b>				
2.	मैट्रोनिडाजोल+क्लोट्रिमाजोल+लेक्टिक एसिड बेसिलस गोलियां	मैट्रोनिडाजोल-500 मिग्रा. क्लोट्रिमाजोल-100 मिग्रा. लेक्टिक एसिड बेसिलस-150 मिलियन स्पोर्स	10 का पत्ता/ब्लिस्टर	8.08
<b>प्रत्येक ग्राम में</b>				
3.	मैट्रोनिडाजोल+क्लोट्रिमाजोल क्रीम/ऑयनटमेंट	मैट्रोनिडाजोल-10% डब्ल्यू/डब्ल्यू क्लोट्रिमाजोल-2% डब्ल्यू/डब्ल्यू	45 ग्राम की ट्यूब/जार	18.02
<b>प्रत्येक घुलनशील गोलियों में</b>				
4.	मैट्रोनिडाजोल+नोरफ्लोक्सीन गोलियां	मैट्रोनिडाजोल-500 मिग्रा. नोरफ्लोक्सीन-400 मिग्रा.	10 का पत्ता/ब्लिस्टर	14.46"

**नोट :**

- (क) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत की जाती हैं, और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब तक उसे छूट के लिये सरकार/रा.औ.मू.नि.प्रा. से आदेश प्राप्त न हों।
- (ख) वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो-राटा प्राइजिंग आदेश का. आ. 83(अ) दिनांक 27.1.1998 के तहत आयेगी।
- (ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन/नियत कराने के लिये आना होगा।
- (घ) इस आदेश में विनिर्मित पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, निम्नलिखित आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

क्र.सं. आदेश सं. दिनांक  
तथा पूर्व में जारी अन्य सभी आदेश जिन विनिर्मित पैकों की प्रबलता इस आदेश में नियत की गई अधिकतम कीमत के समान हैं।

[क्र.सं./89/2006/वि/फा.सं. 8(5)/2006/डीपी/एनपीपीए-डिबी-II]

जगदीश कुमार, उप-निदेशक

**ORDER**

New Delhi, the 8th November, 2006.

**S.O. 1924(E).**—In exercise of the powers, conferred by sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 9 and paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S.O. 637 (E) dated the 4<sup>th</sup> September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax, if any, of each of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Metronidazole + Diloxamide Furoate Tablets	<u>Each coated tab contains</u> Metronidazole 200 mg Diloxamide Furoate 250 mg	15's Bottle	12.90
2.	Metronidazole + Clotrimazole+ Lactic Acid Bacillus Tablets	<u>Each vaginal tab contains</u> Metronidazole 500mg Clotrimazole 100mg Lactic Acid Bacillus 150 million spores	10's Strip/Blister	8.08
3.	Metronidazole+Clotrimazole Cream/Ointments	<u>Each gm contains</u> Metronidazole 10%w/w Clotrimazole 2% w/w	45gm Tube/Jar	18.02
4.	Metronidazole + Norfloxacin Tablets	<u>Each dispersible tablet contains</u> Metronidazole 500mg Norfloxacin 400mg	10's Strip/Blister	14.46

**Note :**

- (a) The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if any) for the specified pack and packs of similar strength, and companies cannot claim exemption on any ground therefrom, unless specifically permitted by the Government/NPPA through an order.
- (b) Pro-rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide S.O. No. 83(E) dated 27.1.1998.
- (c) For different packing material used or any special feature claimed, companies are required to approach NPPA for approval/fixation of specific prices.
- (d) Consequent to the issue of ceiling price of the formulation pack(s) in this notification, the following price order(s) issued prior to this date of notification stand automatically withdrawn :

Sl.No.	Price Order No.	Date
--------	-----------------	------

and any other price order(s) issued earlier for the composition of the formulation pack for which ceiling price is notified in this notification.

[PN/89/2006/F/F. No. 8(5)/2006/DP/NPPA-Div.-II]

JAGDISH KUMAR, Dy. Director

**आदेश**

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006

**का.अ. 1925(अ).**—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 637(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा (1) और (2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

## सारणी

क्र.सं.	विनिर्दिष्ट पैक का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5

## प्रत्येक मिलि में

1.	ट्राइमैथोप्रिम+ सल्फामिथोक्साजोल ड्रॉप	ट्राइमैथोप्रिम-20 मिग्रा. सल्फामिथोक्साजोल-100 मिग्रा.	15 मिलि कीट बोतल ड्रॉपर और कार्टन सहित	8.04"
----	---	---	--	-------

## नोट :

- (क) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत की जाती हैं, और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब तक उसे छूट के लिये सरकार/रा.औ.मू.नि.प्रा. से आदेश प्राप्त न हों।
- (ख) वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो-राटा प्राइजिंग आदेश का. आ. 83(अ) दिनांक 27.1.1998 के तहत आयेगी।
- (ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन/नियत कराने के लिये आना होगा।
- (घ) इस आदेश में विनिर्मित पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, निम्नलिखित आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

क्र.सं.

आदेश सं.

दिनांक

तथा पूर्व में जारी अन्य सभी आदेश जिन विनिर्मित पैकों की प्रबलता इस आदेश में नियत की गई अधिकतम कीमत के समान हैं।

[क्र.सं./89/2006/वि.क्र.सं. 8(5)/2006/डीपी/एनपीपीए-डिबी-II]

जगदीश कुमार, उप-निदेशक

## ORDER

New Delhi, the 8th November, 2006

**S.O. 1925(E).**—In exercise of the powers, conferred by sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 9 and paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S.O. 637 (E) dated the 4<sup>th</sup> September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax, if any, of each of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

1.	Trimethoprim + Sulphamethoxazole Drops	<u>Each ml contains</u> Trimethoprim 20mg Sulphamethoxazole 100mg	15ml Bottle with Dropper & Carton	8.04"
----	---	---	---	-------

**Note :**

- (a) The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if any) for the specified pack and packs of similar strength, and companies cannot claim exemption on any ground therefrom, unless specifically permitted by the Government/NPPA through an order.
- (b) Pro-rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide S.O. No. 83(E) dated 27.1.1998.
- (c) For different packing material used or any special feature claimed, companies are required to approach NPPA for approval/fixation of specific prices.
- (d) Consequent to the issue of ceiling price of the formulation pack(s) in this notification, the following price order(s) issued prior to this date of notification stand automatically withdrawn :

Sl.No.	Price Order No.	Date
--------	-----------------	------

and any other price order(s) issued earlier for the composition of the formulation pack for which ceiling price is notified in this notification.

[PN/89/2006/F/F. No. 8(5)/2006/DP/NPPA-Div.-II]

JAGDISH KUMAR, Dy. Director

**आदेश**

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006

**क्र.आ. 1926(अ).—**राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 637(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा (1) और (2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

**सारणी**

क्र.सं.	विनिर्मित का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5
		<b>प्रत्येक गोलियों में</b>		
1.	पायरिमेथामाइन+ सल्फाडोक्सीन गोलियां	पायरिमेथामाइन—50 मिग्रा. सल्फाडोक्सीन—1000 मिग्रा.	1 का पत्ता/ब्लिस्टर	3.20
		<b>प्रत्येक 5 मिलि में</b>		
2.	पायरिमेथामाइन+ सल्फाडोक्सीन सिरप	पायरिमेथामाइन—6.25 मिग्रा. सल्फाडोक्सीन—125 मिग्रा.	10 मिलि की बोतल	5.36"

**नोट**

- (क) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत की जाती हैं, और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब तक उसे छूट के लिये सरकार/रा.औ.मू.नि.प्रा. से आदेश प्राप्त न हों।

- (ख) वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो-राटा प्राइजिंग आदेश का आ. 83(अ) दिनांक 27.1.1998 के तहत आयेगी।
- (ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन/नियत कराने के लिये आना होगा।
- (घ) इस आदेश में विनिर्मित पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, निम्नलिखित आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

क्र.सं.

आदेश सं.

दिनांक

तथा पूर्व में जारी अन्य सभी आदेश जिन विनिर्मित पैकों की प्रबलता इस आदेश में नियत की गई अधिकतम कीमत के समान हैं।

[क्रां.सं./89/2006/वि/का.सं. 8(5)/2006/डीपी/एनपीपीए-डिबी.-II]

जगदीश कुमार, उप-निदेशक

## ORDER

New Delhi, the 8th November, 2006

**S.O. 1924(E).**—In exercise of the powers, conferred by sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 9 and paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S.O. 637 (E) dated the 4<sup>th</sup> September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax, if any, of each of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pyrimethamine + Sulphadoxine Tablets	<u>Each tablet contains</u> Pyrimethamine 50mg Sulphadoxine 1000mg	1's Strip/Blister	3.20
2.	Pyrimethamine + Sulphadoxine Syrup	<u>Each 5ml contains</u> Pyrimethamine 6.25mg Sulphadoxine 125mg	10ml Bottle	5.36

## Note :

- (a) The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if any) for the specified pack and packs of similar strength, and companies cannot claim exemption on any ground therefrom, unless specifically permitted by the Government/NPPA through an order.
- (b) Pro-rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide S.O. No. 83(E) dated 27.1.1998.
- (c) For different packing material used or any special feature claimed, companies are required to approach NPPA for approval/fixation of specific prices.

- (d) Consequent to the issue of ceiling price of the formulation pack(s) in this notification, the following price order(s) issued prior to this date of notification stand automatically withdrawn :

Sl.No. Price Order No. Date

and any other price order(s) issued earlier for the composition of the formulation pack for which ceiling price is notified in this notification.

[PN/89/2006/F/F. No. 8(5)/2006/DP/NPPA-Div.-II]

JAGDISH KUMAR, Dy. Director

**आदेश**

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006

**बि.आ. 1927(अ).—**राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी कां. 637(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा (1) और (2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

**सारणी**

क्र.सं.	विनिर्मित का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5

**प्रत्येक गोलियों में**

1.	फ्रूसामाइड+ पोटाशियम क्लोराइड गोलियां	फ्रूसामाइड-20 मिग्रा. पोटाशियम क्लोराइड-300 मिग्रा.	10 का पत्ता/ब्लिस्टर	2.38
2.	फ्रूसामाइड+ पोटाशियम क्लोराइड गोलियां	फ्रूसामाइड-40 मिग्रा. पोटाशियम क्लोराइड-600 मिग्रा.	10 का पत्ता/ब्लिस्टर	3.60"

**नोट :**

- (क) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत की जाती हैं, और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब तक उसे छूट के लिये सरकार/रा.औ.मू.नि.प्रा. से आदेश प्राप्त न हों।
- (ख) वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो-राटा प्राइजिंग आदेश का. आ. 83(अ) दिनांक 27.1.1998 के तहत आयेगी।
- (ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन/नियत कराने के लिये आना होगा।
- (घ) इस आदेश में विनिर्मित पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, निम्नलिखित आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

क्र.सं.

आदेश सं.

दिनांक

तथा पूर्व में जारी अन्य सभी आदेश जिन विनिर्मित पैकों की प्रबलता इस आदेश में नियत की गई अधिकतम कीमत के समान हैं।

[कां.सं./89/2006/वि/फा.सं. 8(5)/2006/डीपी/एनपीपीए-डिवी.-II]

जगदीश कुमार, उप-निदेशक

**ORDER**

New Delhi, the 8th November, 2006

**S.O. 1927(06).**—In exercise of the powers, conferred by sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 9 and paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S.O. 637 (E) dated the 4<sup>th</sup> September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax, if any, of each of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

**TABLE**

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<u>Each tab contains</u>		
1.	Frusemide + Potassium Chloride Tablets	Frusemide 20mg Potassium Chloride - 300mg	10's Strip/Blister	2.38
2.	Frusemide + Potassium Chloride Tablets	Frusemide 40mg Potassium Chloride - 600mg	10's Strip/Blister	3.60"

**Note :**

- The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if any) for the specified pack and packs of similar strength, and companies cannot claim exemption on any ground therefrom, unless specifically permitted by the Government/NPPA through an order.
- Pro-rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide S.O. No. 83(E) dated 27.1.1998.
- For different packing material used or any special feature claimed, companies are required to approach NPPA for approval/fixation of specific prices.
- Consequent to the issue of ceiling price of the formulation pack(s) in this notification, the following price order(s) issued prior to this date of notification stand automatically withdrawn :

Sl.No.	Price Order No.	Date
--------	-----------------	------

and any other price order(s) issued earlier for the composition of the formulation pack for which ceiling price is notified in this notification.

[PN/89/2006/F.F. No. 8(5)/2006/DP/NPPA-Div.-II]

JAGDISH KUMAR, Dy. Director

## आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006

**का.अ. 1928(अ).—**राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 637(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा (1) और (2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के आदेश सं० का० आ० 608(अ), तारीख 27 मई, 2003 को जहाँ तक उसका सम्बन्ध नीचे की सारणी के विनिर्मित पैकों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

## सारणी

क्र.सं.	विनिर्मित का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5
		<u>प्रत्येक 9 मिलि में</u>		
1.	जैन्टामाइसिन इन्जेक्शन	जैन्टामाइसिन सल्फेट 40 मिग्रा. जैन्टामाइसिन बेस के बराबर	2 मिलि का वायल कन्वैन्शनल पैक	5.60
2.	जैन्टामाइसिन इन्जेक्शन	जैन्टामाइसिन सल्फेट 40 मिग्रा. जैन्टामाइसिन बेस के बराबर	2 मिलि का वायल टेम्पर प्रूफ सील पैक सहित	6.00
3.	जैन्टामाइसिन इन्जेक्शन	जैन्टामाइसिन सल्फेट 10 मिग्रा. जैन्टामाइसिन बेस के बराबर	2 मिलि का वायल कन्वैन्शनल पैक	5.04
4.	जैन्टामाइसिन इन्जेक्शन	जैन्टामाइसिन सल्फेट 10 मिग्रा. जैन्टामाइसिन बेस के बराबर	2 मिलि का वायल टेम्पर प्रूफ सील पैक सहित	5.44"
<b>नोट :</b>				
(क)	ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत की जाती हैं, और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब तक उसे छूट के लिये सरकार/रा.औ.मू.नि.प्रा. से आदेश प्राप्त न हों।			
(ख)	वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो-राटा प्राइजिंग आदेश का. आ. 83(अ) दिनांक 27.1.1998 के तहत आयेगी।			
(ग)	अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन/नियत कराने के लिये आना होगा।			
(घ)	इस आदेश में विनिर्मित पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, निम्नलिखित आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।			
क्र.सं.	आदेश सं.	दिनांक		
तथा पूर्व में जारी अन्य सभी आदेश	जिन विनिर्मित पैकों की प्रबलता इस आदेश में नियत की गई	अधिकतम कीमत के समान हैं।		

[कां.सं./89/2006/वि.फा.सं. 8(5)/2006/डीपी/एनपीपीए-डिवी.-II]

जगदीश कुमार, उप-निदेशक

**ORDER**

New Delhi, the 8th November, 2006

**S.O. 1928(E).**—In exercise of the powers, conferred by sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 9 and paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S.O. 637 (E) dated the 4<sup>th</sup> September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers and in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers. (National Pharmaceutical Pricing Authority) No. S.O. 608(E), dated 27<sup>th</sup> May, 2003, in so far as it relates to formulation packs mentioned in the table below, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the National Pharmaceutical Pricing Authority hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table below as the ceiling price exclusive of excise duty, and local tax, if any, for scheduled formulation specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in column (3) and (4) thereof :

**TABLE**

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gentamycin Injections	<u>Each 1ml contains</u> Gentamycin Sulphate eq. to Gentamycin base- 40 mg	2ml Vial Conventional Pack	5.60
2.	Gentamycin Injections	Gentamycin Sulphate eq. to Gentamycin base- 40 mg	2ml Vial with Temper proof seal pack	6.00
3.	Gentamycin Injections	Gentamycin Sulphate eq. to Gentamycin base- 10 mg	2ml Vial Conventional Pack	5.04
4.	Gentamycin Injections	Gentamycin Sulphate eq. to Gentamycin base- 10 mg	2ml Vial with Temper proof seal pack	5.44

**Note :**

- The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if any) for the specified pack and packs of similar strength, and companies cannot claim exemption on any ground therefrom, unless specifically permitted by the Government/NPPA through an order.
- Pro-rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide S.O. No. 83(E) dated 27.1.1998.
- For different packing material used or any special feature claimed, companies are required to approach NPPA for approval/fixation of specific prices.
- Consequent to the issue of ceiling price of the formulation pack(s) in this notification, the following price order(s) issued prior to this date of notification stand automatically withdrawn :

Sl.No.

Price Order No.

Date

and any other price order(s) issued earlier for the composition of the formulation pack for which ceiling price is notified in this notification.

[PN/89/2006/F.P. No. 8(5)/2006/DP/NPPA-Div.-II]

JAGDISH KUMAR, Dy. Director

## आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006

**का.आ. 1929(अ).**—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का.आ. 637(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा (1) और (2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

## सारणी

क्र.सं.	विनिर्मित का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5

## प्रत्येक कैपसूल में

1.	विटामिन ई एसिटेट+ कोड लिवर ऑयल कैपसूल	विटामिन ई एसिटेट—400 मिग्रा./आईयू कोड लिवर ऑयल—300 मिग्रा.	10 का पत्ता/ब्लिस्टर	11.70"
----	--	---	-------------------------	--------

## नोट :

- (क) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत की जाती हैं, और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब तक उसे छूट के लिये सरकार/रा.औ.मू.नि.प्रा. से आदेश प्राप्त न हों।
- (ख) वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो-राटा प्राइजिंग आदेश का. आ. 83(अ) दिनांक 27.1.1998 के तहत आयेगी।
- (ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन/नियत कराने के लिये आना होगा।
- (घ) इस आदेश में विनिर्मित पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, निम्नलिखित आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

क्र.सं.	आदेश सं.	दिनांक
1	8(9)/2005/DP/NPPA-Div.II	16.9.2005

तथा पूर्व में जारी अन्य सभी आदेश जिन विनिर्मित पैकों की प्रबलता इस आदेश में नियत की गई अधिकतम कीमत के समान हैं।

[कां.सं./89/2006/वि/फा.सं. 8(5)/2006/डीपी/एनपीपीए-डिजी.-II]

जगदीश कुमार, उप-निदेशक

## ORDER

New Delhi, the 8th November, 2006

**S.O. 1929(E).**—In exercise of the powers, conferred by sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 9 and paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S.O. 637 (E) dated the 4<sup>th</sup> September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax, if any, of each of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

"1.	Vitamin E Acetate + Cod Liver Oil Capsules	<u>Each capsule contains</u> Vitamin E Acetate - 400 mg / IU Cod Liver Oil - 300 mg	10's Strip/Blister	11.70"
-----	---	---	-----------------------	--------

**Note :**

- (a) The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if any) for the specified pack and packs of similar strength, and companies cannot claim exemption on any ground therefrom, unless specifically permitted by the Government/NPPA through an order.
- (b) Pro-rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide S.O. No. 83(E) dated 27.1.1998.
- (c) For different packing material used or any special feature claimed, companies are required to approach NPPA for approval/fixation of specific prices.
- (d) Consequent to the issue of ceiling price of the formulation pack(s) in this notification, the following price order(s) issued prior to this date of notification stand automatically withdrawn :

Sl.No.	Price Order No.	Date
1.	8(9)/2005/DP/NPPA-Div.II	16.09.2005

and any other price order(s) issued earlier for the composition of the formulation pack for which ceiling price is notified in this notification.

[PN/89/2006/F.F. No. 8(5)/2006/DP/NPPA-Div.-II]

JAGDISH KUMAR, Dy. Director

**आदेश**

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006

क्र.अ. 1930(अ)।—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 637(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा (1) और (2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

**सारणी**

क्र.सं.	विनिर्मिति का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5

**प्रत्येक गोलियों में**

"1.	डेक्सामिथाजोन गोलियां	डेक्सामिथाजोन-0.5 मिग्रा.	2000 का जार	203.62"
-----	-----------------------	---------------------------	-------------	---------

(क) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत की जाती हैं, और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब तक उसे छूट के लिये सरकार/रा.औ.मू.नि.प्रा. से आदेश प्राप्त न हों।

(ख) वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो-राटा प्राइजिंग आदेश का. आ. 83(अ) दिनांक 27.1.1998 के तहत आयेगी।

(ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामाग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन/नियत कराने के लिये आना होगा।

(घ) इस आदेश में विनिर्मित पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, निम्नलिखित आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

क्र.सं.	आदेश सं.	दिनांक
तथा पूर्व में जारी अन्य सभी आदेश जिन विनिर्मित पैकों की प्रबलता इस आदेश में नियत की गई अधिकतम कीमत के समान हैं।		

जगदीश कुमार, उप-निदेशक

New Delhi, the 8th November, 2006

### TABLE

**Note :**

- (a) The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if any) for the specified pack and packs of similar strength, and companies cannot claim exemption on any ground therefrom, unless specifically permitted by the Government/NPPA through an order.
- (b) Pro-rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide S.O. No. 83(E) dated 27.1.1998.
- (c) For different packing material used or any special feature claimed, companies are required to approach NPPA for approval/fixation of specific prices.
- (d) Consequent to the issue of ceiling price of the formulation pack(s) in this notification, the following price order(s) issued prior to this date of notification stand automatically withdrawn :

Sl.No.	Price Order No.	Date
and any other price order(s) issued earlier for the composition of the formulation pack for which ceiling price is notified in this notification.		

**JAGDISH KUMAR, Dy. Director**

## आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006

**क्र.आ. 1931(अ).—**राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 637(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा (1) और (2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितयों में से प्रत्येक की, उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

## सारणी

क्र.सं.	विनिर्मित का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5
<b>प्रत्येक गोलियों में</b>				
1.	कैल्शियम पैन्टोथिनेट गोलियां	कैल्शियम पैन्टोथिनेट-50 मिग्रा.	10 का पत्ता/ब्लिस्टर	1.48
2.	कैल्शियम पैन्टोथिनेट गोलियां	कैल्शियम पैन्टोथिनेट-100 मिग्रा.	10 का पत्ता/ब्लिस्टर	1.98
<b>प्रत्येक मिलि में</b>				
3.	कैल्शियम पैन्टोथिनेट इन्जेक्शन	डी-पैन्थिनोल-50 मिग्रा. (58 मिग्रा. कैल्शियम पैन्टोथिनेट के बराबर)	10 मिलि का वायल	7.14"

## नोट :

- (क) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत की जाती हैं, और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब तक उसे छूट के लिये सरकार/रा.औ.मू.नि.प्रा. से आदेश प्राप्त न हों।
- (ख) वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो-राटा प्राइजिंग आदेश का. आ. 83(अ) दिनांक 27.1.1998 के तहत आयेगी।
- (ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन/नियत कराने के लिये आना होगा।
- (घ) इस आदेश में विनिर्मित पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, निम्नलिखित आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

क्र.सं.

आदेश सं.

दिनांक

तथा पूर्व में जारी अन्य सभी आदेश जिन विनिर्मित पैकों की प्रबलता इस आदेश में नियत की गई अधिकतम कीमत के समान हैं।

[क्र.सं./89/2006/वि.फा.सं. 8(5)/2006/डीपी/एनपीपीए-डि.वी.-II]

जगदीश कुमार, उप-निदेशक

**ORDER**

New Delhi, the 8th November, 2006

**S.O. 1931(E).**—In exercise of the powers, conferred by sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 9 and paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S.O. 637 (E) dated the 4<sup>th</sup> September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax, if any, of each of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

**TABLE**

Sl. No	Name of the formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Calcium Pantothenate Tablets	<u>Each tablet contains</u> Calcium Pantothenate - 50 mg	10's Strip/Blister	1.48
2.	Calcium Pantothenate Tablets	Calcium Pantothenate - 100 mg	10's Strip/Blister	1.98
3.	Calcium Pantothenate Injections	<u>Each ml contains</u> D - Panthenol - 50 mg (eq. to Calcium Pantothenate 58 mg)	10ml Vial	7.14

**Note :**

- The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if any) for the specified pack and packs of similar strength, and companies cannot claim exemption on any ground therefrom, unless specifically permitted by the Government/NPPA through an order.
- Pro-rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide S.O. No. 83(E) dated 27.1.1998.
- For different packing material used or any special feature claimed, companies are required to approach NPPA for approval/fixation of specific prices.
- Consequent to the issue of ceiling price of the formulation pack(s) in this notification, the following price order(s) issued prior to this date of notification stand automatically withdrawn :

Sl.No.

Price Order No.

Date

and any other price order(s) issued earlier for the composition of the formulation pack for which ceiling price is notified in this notification.

[PN/89/2006/F/F.No. 8(5)/2006/DP/NPPA-Div.-II]

JAGDISH KUMAR, Dy. Director

## आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006

का.आ. 1932(अ).—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 637(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा (1) और (2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

## सारणी

क्र.सं.	विनिर्मित का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5
		<b>प्रत्येक 5 मिलि में</b>		
1.	सेलब्यूटामोल+इटोफाइलिन+ ग्लाइसोल ग्युकोल एथर सिरप	सेलब्यूटामोल सल्फेट 1 मिग्रा. सेलब्यूटामोल के बराबर इटोफाइलिन—50 मिग्रा. ग्लाइसोल ग्युकोल एथर—50 मिग्रा.	100 मिलि की बोतल	13.10
2.	सेलब्यूटामोल+एम्ब्रोक्सोल सिरप	सेलब्यूटामोल सल्फेट 2 मिग्रा. सेलब्यूटामोल के बराबर एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड—30 मिग्रा.	50 मिलि की बोतल	9.16
3.	सेलब्यूटामोल+एम्ब्रोक्सोल+ ग्युफैनसीन सिरप	सेलब्यूटामोल सल्फेट 2 मिग्रा. सेलब्यूटामोल के बराबर एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड—30 मिग्रा. ग्युफैनसीन—50 मिग्रा.	100 मिलि की बोतल	15.30
4.	सेलब्यूटामोल+एम्ब्रोक्सोल+ ग्युफैनसीन+मैन्थोल सिरप/एक्सपैक्टोरेन्ट	सेलब्यूटामोल सल्फेट—1 मिग्रा. एम्ब्रोक्सोल—15 मिग्रा. ग्युफैनसीन—50 मिग्रा. मैन्थोल—0.5 मिग्रा.	60 मिलि की बोतल	9.90
		<b>प्रत्येक 10 मिलि में</b>		
5.	सेलब्यूटामोल+ब्रोमोहेक्सीन+ ग्युफैनसीन+मैन्थोल सिरप/ <del>एक्सपैक्टोरेन्ट</del>	सेलब्यूटामोल सल्फेट 2 मिग्रा. सेलब्यूटामोल के बराबर ब्रोमोहेक्सीन—4 मिग्रा. ग्युफैनसीन—100 मिग्रा. मैन्थोल—1 मिग्रा.	60 मिलि की बोतल	9.50

354961/06—5

**नोट :**

- (क) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत की जाती हैं, और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब तक उसे छूट के लिये सरकार/रा.औ.मू.नि.प्रा. से आदेश प्राप्त न हों।
- (ख) वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो-राटा प्राइजिंग आदेश का आ. 83(अ) दिनांक 27.1.1998 के तहत अन्वयेगी।
- (ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन/नियत कराने के लिये आना होगा।
- (घ) इस आदेश में विनिर्मित पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, निम्नलिखित आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

क्र.सं.

आदेश सं.

दिनांक

तथा पूर्व में जारी अन्य सभी आदेश जिन विनिर्मित पैकों की प्रबलता इस आदेश में नियत की गई अधिकतम कीमत के समान हैं।

[क्र.सं./89/2006/वि/फा.सं. 8(5)/2006/डीपी/एनपीपीए-डिबी.-II]

अगदीश कुमार, उप-निदेशक

**ORDER**

New Delhi, the 8th November, 2006

**S.O. 1932(E).**—In exercise of the powers, conferred by sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 9 and paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S.O. 637 (E) dated the 4<sup>th</sup> September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax, if any, of each of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

**TABLE**

Sl. No.	Name of the formulation	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Salbutamol+ Etophylline+ Glycerol Guaiacol Ether Syrup	Each 5ml contains Salbutamol Sulphate eq. to Salbutamol - 1mg Etophylline - 50 mg Glycerol Guaiacol Ether - 50 mg	100ml Bottle	13.10
2	Salbutamol+ Ambroxol Syrup	Salbutamol Sulphate eq. to Salbutamol - 2 mg Ambroxol Hydrochloride - 30 mg	50ml Bottle	9.16
3	Salbutamol+ Ambroxol+ Guaiphenesin Syrup	Salbutamol Sulphate eq. to Salbutamol - 2 mg Ambroxol Hydrochloride - 30 mg Guaiphenesin - 50 mg	100ml Bottle	15.30

4.	Salbutamol+ Ambroxol+ Guaiphenesin + Menthol Expectorant/Syrup	Salbutamol 1 mg Ambroxol 15 mg Guaiphenesin 50 mg Menthol 0.5 mg	60ml Bottle	9.90
5.	Salbutamol+ Bromhexine+ Guaiphenesin + Menthol Expectorant/Syrup	<u>Each 10ml contains</u> Salbutamol Sulphate eq. to Salbutamol - 2mg Bromhexine HCl - 4mg Guaiphenesin - 100mg Menthol - 1mg	60ml Bottle	9.50

**Note :**

- (a) The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if any) for the specified pack and packs of similar strength, and companies cannot claim exemption on any ground therefrom, unless specifically permitted by the Government/NPPA through an order.
- (b) Pro-rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide S.O. No. 83(E) dated 27.1.1998.
- (c) For different packing material used or any special feature claimed, companies are required to approach NPPA for approval/fixation of specific prices.
- (d) Consequent to the issue of ceiling price of the formulation pack(s) in this notification, the following price order(s) issued prior to this date of notification stand automatically withdrawn :

Sl.No.	Price Order No.	Date
--------	-----------------	------

and any other price order(s) issued earlier for the composition of the formulation pack for which ceiling price is notified in this notification.

[PN/89/2006/F/F. No. 8(5)/2006/DP/NPPA-Div.-II]

JAGDISH KUMAR, Dy. Director

**आदेश**

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006

**का.आ. 1933(अ)**—राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी का० आ० 637(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा (1) और (2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ (5) में विनिर्दिष्ट कीमत को उक्त सारणी के स्तंभ (3) और (4) में की क्रमशः तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रबलता और पैक आकार सहित उस सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अनुसूचित विनिर्मितियों में से प्रत्येक की, उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई है, को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत करती है।

**सारणी**

क्र.सं.	विनिर्मित का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अधिकतम कीमत (रु.)
1	2	3	4	5
		<b>प्रत्येक 5 मिलि में</b>		
"1.	मल्टीविटामिन सिरप एन्जाइम सहित	पेपसीन (1 : 3000) 12.5 मिग्रा. फन्गल डियास्टेस (1 : 2000) 18.75 मिग्रा. थायमिन एचसीएल 2 मिग्रा.	200 मिलि की बोतल	20.76

		रिबोफलेविन (रिबोफलेविन फोस्फेट सोडियम के समान) 1 मिग्रा. पायरिडोक्सीन एचसीएल 1.5 मिग्रा. डी-पैन्थिनोल 1.5 मिग्रा. नियासिनामाइड 15 मिग्रा.		
2.	मल्टीविटामिन सिरप एन्जाइम सहित	पेपसीन (1 : 3000) 12.5 मिग्रा. फनल डियास्टेस (1 : 2000) 18.75 मिग्रा. थायमिन एचसीएल 2 मिग्रा. रिबोफलेविन (रिबोफलेविन फोस्फेट सोडियम के समान) 1 मिग्रा. पायरिडोक्सीन एचसीएल 1.5 मिग्रा. डी-पैन्थिनोल 1.5 मिग्रा. नियासिनामाइड 15 मिग्रा.	100 मिलि की बोतल	12.56
3.	मल्टीविटामिन सिरप	थायमिन 2 मिग्रा. रिबोफलेविन 2.5 मिग्रा. पायरिडोक्सीन 0.75 मिग्रा. नियासिनामाइड 1.5 मिग्रा. डी-पैन्थिनोल 3 मिग्रा. सायनाकोबालामाइन 1 एमसीजी	100 मिलि की बोतल	11.60
4.	मल्टीविटामिन सिरप	थायमिन 2 मिग्रा. रिबोफलेविन 2.5 मिग्रा. पायरिडोक्सीन 0.75 मिग्रा. नियासिनामाइड 1.5 मिग्रा. डी-पैन्थिनोल 3 मिग्रा. सायनाकोबालामाइन 1 एमसीजी	200 मिलि की बोतल	18.86
5.	मल्टीविटामिन टॉनिक	विटामिन ए (पांमिटेट के समान) 800 आईयू कोलकेल्शिफेरोल 100 आईयू विटामिन ई 2.5 आईयू (डीएल-एल्फा टोकोफेरोल एसिटेट के समान) थायमिन एचसीएल 0.75 मिग्रा. रिबोफलेविन फोस्फेट सोडियम 0.75 मिग्रा. पायरिडोक्सीन एचसीएल 0.5 मिग्रा. सायनाकोबालामाइन 0.5 एमसीजी डी-पैन्थिनोल 0.5 मिग्रा. निकोटिनामाइड 7.5 मिग्रा. एल-लायसिन मोनोहाइड्रोक्लोराइड 5 मिग्रा. पोटाशियम आयोडाइड 50 एमसीजी कोपर सल्फेट 100 एमसीजी जिंक सल्फेट 22.2 मिग्रा.	200 मिलि की बोतल	18.90

**प्रत्येक मिलि में**

6. मल्टीविटामिन ड्रॉप  
एन्जाइम सहित
- डियास्टेस 1 : 5400 - 6 मिग्रा. 15 मिलि की बोतल 7.46  
(डाइजेस्टा 50 मिग्रा. का कूकड स्टार्च)  
पेपसीन 5 मिग्रा., थायमिन एचसीएल 1 मिग्रा. ड्रॉपर और कार्टन  
रिबोफ्लेविन .1 मिग्रा. सहित  
(5-फोस्फेट सोडियम के समान)  
पायरिडोक्सीन एचसीएल 1 मिग्रा.  
सायनाकोबालामाइन 1 एमसीजी  
साइप्रोहेप्टाडाइन एचसीएल 0.5 मिग्रा.

**प्रत्येक गोलियों में**

7. मल्टीविटामिन गोलियां  
एन्जाइम सहित
- पेपसीन (1 : 3000) 12.5 मिग्रा. 10 का 8.75  
फंगल डियास्टेस (1 : 50) 750 मिग्रा. पेट्टा/ब्लिस्टर  
थायमिन मोनोनाइट्रेट 2 मिग्रा.  
रिबोफ्लेविन (रिबोफ्लेविन फोस्फेट  
सोडियम के समान) 1 मिग्रा.  
पायरिडोक्सीन एचसीएल 1.5 मिग्रा.  
सायनाकोबालामाइन 1 एमसीजी  
डी-कैल्शियम पैन्टोथिनेट 2.5 मिग्रा.  
नियासिनामाइड 15 मिग्रा.  
बाइल स्लेट बीपीसी 40 मिग्रा.

**प्रत्येक 15 मिलि में**

8. मल्टीविटामिन लिक्विड
- विटामिन ए (पामिटेट के समान) 2500 आईयू 150 मिलि की 16.94  
थायमिन हाइड्रोक्लोराइड 1.5 मिग्रा. बोतल  
रिबोफ्लेविन सोडियम फोस्फेट  
1.7 मिग्रा. रिबोफ्लेविन के बराबर  
पायरिडोक्सीन हाइड्रोक्लोराइड 1.5 मिग्रा.  
विटामिन बी-12 1 एमसीजी, विटामिन ई एसिटेट 10 आईयू  
विटामिन सी 50 मिग्रा., विटामिन डी-3 200 आईयू  
नियासिनामाइड 20 मिग्रा., डी-पैन्थिनोल 5 मिग्रा.  
बायोटिन 300 एमसीजी,  
जिंक (जिंक ग्लूकोनेट के समान) 3 मिग्रा.  
आयोडिन (पोटाशियम आयोडिन के समान) 150 एमसीजी  
आयरन (फेरस ग्लूकोनेट के समान) 9 मिग्रा.  
मेगनीस (मेगनीस क्लोराइड के समान) 2.5 मिग्रा.  
क्रोमियम (क्रोमियम क्लोराइड के समान) 25 एमसीजी  
मोलिब्डेनम (सोडियम मोलिब्डेट के समान) 25 एमसीजी  
एथनोल (95%) आईपी 5.4% डब्ल्यू/बी एथनोल के बराबर  
थायमिन एचसीएल 2.5 मिग्रा. 200 मिलि की 19.22  
रिबोफ्लेविन फोस्फेट सोडियम 2.5 मिग्रा. बोतल  
पायरिडोक्सीन एचसीएल 1 मिग्रा.
9. मल्टीविटामिन टॉनिक

सायनाकोबालामाइन 6.75 एमसीजी  
डी-पैन्थिनोल 3 मिग्रा.  
निकोटिनामाइड 25 मिग्रा.  
फेरस ग्लूकोनेट 0.1 ग्राम  
यिस्ट कनसेन्ट्रेट 25 मिग्रा.

**प्रत्येक मिलि में**

10. मल्टीविटामिन ड्रॉप

विटामिन ए (पामिटेड के समान) 1250 आईयू  
विटामिन डी-3 200 आईयू  
विटामिन ई एसिटेड 3 मिग्रा.  
थायमिन हाइड्रोक्लोराइड 0.5 मिग्रा.  
रिबोफ्लेविन सोडियम फोस्फेट  
0.5 मिग्रा. रिबोफ्लेविन के बराबर  
नियासिनामाइड 5 मिग्रा.  
पायरिडोक्सीन हाइड्रोक्लोराइड 0.5 मिग्रा.  
विटामिन सी 25 मिग्रा.,  
जिंक (जिंक सल्फेट के समान) 2.5 मिग्रा.  
आयरन (फेरस ग्लूकोनेट के समान) 5 मिग्रा.  
डी-पैन्थिनोल 3 मिग्रा.  
लायसिन एचसीएल 10 मिग्रा.

15 मिलि की बोतल 8.32  
ड्रॉपर और कार्टन  
सहित

**प्रत्येक फिल्म लिपित गोलियों में**

11. मल्टीविटामिन गोलियां

थायरोइड 85' — 15 मिग्रा.  
टोकोफेरॉल एसिटेड—10 मिग्रा.  
थायमिन मोनोनाइट्रेट 2.5 मिग्रा.  
रिबोफ्लेविन 2.5 मिग्रा.  
कैल्शियम पैन्थोथिनेट 5 मिग्रा.  
निकोटिनामाइड 25 मिग्रा.  
पायरिडोक्सीन एचसीएल 1 मिग्रा.

10 का 5.96"  
पत्ता/क्लिस्टर

नोट :

- (क) ये कीमतें विनिर्दिष्ट पैक व समान प्रबलता के पैकों पर उत्पाद शुल्क और स्थायी कर को छोड़कर अधिकतम कीमत के रूप में नियत की जाती हैं, और कम्पनी किसी छूट का दावा नहीं कर सकती, जब तक उसे छूट के लिये सरकार/रा.औ.मू.नि.प्रा. से आदेश प्राप्त न हों।
- (ख) वह पैक जिसकी कम्पोजिशन समान है लेकिन आकार में अन्तर है, वह प्रो-राटा प्राइजिंग आदेश का. आ. 83(अ) दिनांक 27.1.1998 के तहत आयेगी।
- (ग) अगर कम्पनी, विभिन्न प्रकार की पैकिंग सामग्री या उसमें विशेष लक्षण का दावा करती है तो उसे राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के पास कीमत के अनुमोदन/नियत कराने के लिये आना होगा।
- (घ) इस आदेश में विनिर्मित पैकों की अधिकतम कीमत नियत होने के परिणाम स्वरूप, निम्नलिखित आदेश जो कि इस आदेश से पूर्व जारी हुए हैं, स्वतः ही निरस्त हो जायेंगे।

क्र.सं.

आदेश सं.

दिनांक

तथा पूर्व में जारी अन्य सभी आदेश जिन विनिर्मित पैकों की प्रबलता इस आदेश में नियत की गई अधिकतम कीमत के समान हैं।

## ORDER

New Delhi, the 8th November, 2006

**S.O. 1933(E).**—In exercise of the powers, conferred by sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 9 and paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S.O. 637 (E) dated the 4<sup>th</sup> September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, the National Pharmaceutical Pricing Authority, hereby fixes the prices as specified in column (5) of the table below as ceiling prices exclusive of excise duty and local tax, if any, of each of the Scheduled formulations specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof:

TABLE

Sl. No.	Name of the formulation.	Strength	Pack Size	Ceiling Price (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Multivitamin with Enzyme Syrup	Each 5ml contains Pepsin (1 : 3000) 12.5mg Fungal Diastase (1 ; 2000) 18.75mg Thiamine Hcl 2mg Riboflavin (as Riboflavin Phosphate Sodium)- 1mg Pyridoxine Hcl 1.5mg, D-Panthenol 1.5mg Niacinamide 15mg	200ml Bottle	20.76
2.	Multivitamin with Enzyme Syrup	Pepsin (1 : 3000) 12.5mg Fungal Diastase (1 ; 2000) 18.75mg Thiamine Hcl 2mg Riboflavin (as Riboflavin Phosphate Sodium)- 1mg Pyridoxine Hcl 1.5mg, D-Panthenol 1.5mg Niacinamide 15mg	100ml Bottle	12.56
3.	Multivitamin Syrup	Thiamine 2mg Riboflavin 2.5mg Pyridoxine 0.75mg Niacinamide 1.5mg, D - Panthenol 3mg Cyanacobalamin 1mcg	100ml Bottle	11.60
4.	Multivitamin Syrup	Thiamine 2mg Riboflavin 2.5mg Pyridoxine 0.75mg Niacinamide 1.5mg, D - Panthenol 3mg Cyanacobalamin 1mcg	200ml Bottle	18.86
5.	Multivitamin Tonic	Vitamin A (as Palmitate) - 800 IU Cholecalciferol - 100 IU Vitamin E - 2.5 IU (as dl- Alpha Tocopheryl Acetate) Thiamine Hcl. - 0.75 mg	200ml Bottle	18.90

		Riboflavin Phosphate sodium -0.75 mg Pyridoxine Hcl. - 0.5 mg Cyanocobalamin 0.5mcg D- Panthenol 0.5mg Nicotinamide 7.5mg L- Lysine Monohydrochloride 5mg Potassium Iodide 50mcg Copper Sulphate 100mcg Zinc Sulphate 22.2mg		
6.	Multivitamin with Enzyme Drops	<u>Each ml contains</u> Diastase 1 : 5400 – 6mg (Digesta 50gm of cooked starch) Pepsin 5mg, Thiamine Hcl 1mg Riboflavin 1mg ( as 5 - Phosphate Sod.) Pyridoxine Hcl 1mg Cyanocobalamine 1mcg Cyproheptadine Hcl 0.5mg	15ml Bottle with Dropper & Carton	7.46
7.	Multivitamin with Enzyme Tablets	<u>Each tablet contains</u> Pepsin (1 : 3000) 12.5mg Fungal Diastase (1 : 50) 750mg Thiamine Mononitrate 2mg Riboflavin (as Riboflavin Phosphate Sodium)- 1mg Pyridoxine Hcl 1.5mg Cyanocobalamine 1mcg D - Calcium Pantothenate 2.5mg Niacinamide 15mg Bile Salte BPC 40mg	10's Strip/Blister	8.75
8.	Multivitamin Liquids	<u>Each 15ml contains</u> Vitamin A (as Vit. A Palmitate) 2500IU Thiamine Hydrochloride 1.5mg Riboflavin Sodium Phosphate eq. to Ribflavin 1.7mg Pyridoxine Hydrochloride 1.5mg Vitamin B12 1mcg, Vit. E Acetated 10 IU. Vitamin C 50mg, Vitamin D3 200 IU. Niacinamide 20mg, D - Panthenol 5mg. Biotin 300mcg, Zinc (as Zinc Gluconate) 3mg, Iodine (as potassium Iodide) 150mcg. Iron (as Ferrous Gluconate) 9mg. Manganese (as manganese chloride) 2.5mg. Chromium (as Chromic Chloride) 25mcg. Molybdenum (as sodium molybdate) 25mcg Ethanol (95%) IP eq. to Ethanol 5.4% w/v	150ml Bottle	16.94

9. Multivitamin Tonic	Thiamine-Hcl. - 2.5 mg Riboflavin-Phosphate sodium -2.5 mg Pyridoxine Hcl. - 1 mg Cyanocobalamine - 6.75 mcg D - Panthenol - 3 mg Nicotinamide - 25 mg Ferrous Gluconate -0.1 g Yeast Concentrate - 25 mg	200ml Bottle	19.22
10. Multivitamin Drops	<u>Each ml contains</u> Vitamin A (as Vit. A Palmitate) 1250IU Vitamin D3 200 IU Vitamin E Acetated 3mg Thiamine Hydrochloride 0.5mg Riboflavin Sodium Phosp. eq. to Riboflavin 0.5mg, Niacinamide 5mg, Pyridoxine Hydrochloride 0.5mg Vitamin C 25mg Zinc (as Zinc Sulphate IP) 2.5mg Iron (as Ferrous Gluconate) 5mg D Panthenol IP 3mg Lysine HCL USP10mg	15ml Bottle with Dropper & Carton	8.32
11. Multivitamin Tablets	<u>Each film coated tablet Contains</u> Thyroid 85' - 15mg Tocopheryl Acetate - 10mg Thiamine Mono Nitrate - 2.5mg Riboflavine - 2.5mg Calcium Pantothenate - 5mg Nicotinamide - 25mg Pyridoxine HCl - 1mg	10's Strip/Blister	5.96"

**Note :**

- (a) The prices fixed are the maximum ceiling prices (exclusive of excise duty and local taxes if any) for the specified pack and packs of similar strength, and companies cannot claim exemption on any ground therefrom, unless specifically permitted by the Government/NPPA through an order.
- (b) Pro-rata pricing for packs of same composition but of different sizes will be applicable vide S.O. No. 83(E) dated 27.1.1998.
- (c) For different packing material used or any special feature claimed, companies are required to approach NPPA for approval/fixation of specific prices.
- (d) Consequent to the issue of ceiling price of the formulation pack(s) in this notification, the following price order(s) issued prior to this date of notification stand automatically withdrawn :

Sl.No.	Price Order No.	Date
--------	-----------------	------

and any other price order(s) issued earlier for the composition of the formulation pack for which ceiling price is notified in this notification.

## आदेश

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2006

**क्र.आ. 1934(अ).—**राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी कां० आ० 637(अ) तारीख 4 सितम्बर, 1997 के साथ पठित औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 के पैरा 9 के उप पैरा (1) और (2) और पैरा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय (राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) के आदेश सं० का० आ० 1064(अ), तारीख 11 जुलाई, 2006 के आदेश में राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण विटामिन के के निम्नलिखित फेक्टर को नोट के तहत क्रं. सं. (xxxii) के बाद नियत करती है।

(xxxiii) प्रत्येक 10 एमसीजी या उसके खण्ड के लिये विटामिन के के लिए 0.0024 रु. जोड़े या घटाये जा सकेंगे।

[कां.सं./89/2006/वि/फा.सं. 8(5)/2006/डीपी/एनपीपीए-डिवी.-II]

जगदीश कुमार, उप-निदेशक

## ORDER

New Delhi, the 8th November, 2006

**S.O. 1934(E).—**In exercise of the powers, conferred by sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 9 and paragraph 11 of the Drugs (Prices Control) Order, 1995, read with No. S.O. 637 (E) dated the 4<sup>th</sup> September, 1997 issued by the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers and in partial modifications of the Order of the Government of India in the Ministry of Chemicals and Fertilizers, (National Pharmaceutical Pricing Authority) No. S.O. 1064(E), dated 11<sup>th</sup> July, 2006, the National Pharmaceutical Pricing Authority hereby fixes the following factor for Vitamin K after Sl. No. 32 under Note portion of the said order.

“33. For each 10mcg or part thereof of Vitamin K **Rs.0.0024** shall be added/subtracted.”

[PN/89/2006/F/F. No. 8(5)/2006/DP/NPPA-Div.-II]

JAGDISH KUMAR, Dy. Director